

एफ.सं.जीए-30011/16/2021-जीए-एफएसएसएआई  
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
तीसरा तल, एफडीए भवन, कोटला रोड,  
नई दिल्ली-110002

दिनांक 30 नवम्बर, 2021

### निविदा आमंत्रित करने से संबंधित सूचना

#### एफएसएसएआई, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 में विविध सिविल और अन्य कार्य करने के लिए निविदा आमंत्रण करना

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों के साथ पंजीकृत ऐसे विख्यात और अनुभवी ठेकेदारों से इस आरएफपी के भाग- II में दिए गए विवरण के अनुसार एफडीए भवन क्षेत्र, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 में सिविल और विद्युत से संबंधित कार्य करने के लिए ऑन-लाइन बोली आमंत्रित करता है जिन्हें दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन कार्यों को करने का अनुभव हो।

02. बोली दो भागों अर्थात तकनीकी और वाणिज्यिक / मूल्य-बोली में प्रस्तुत की जानी है। तकनीकी बोली में बोली प्रत्याभूति घोषणा (बीएसडी), सभी शर्तें और नियमों को स्वीकार करने से संबंधित घोषणा, अर्हता दस्तावेज, मुहर लगी/हस्ताक्षरित आरएफपी सम्मिलित होगी और मूल्य-बोली निर्धारित प्ररूप (ऑन-लाइन पोर्टल पर दिए गए पृथक रूप से संलग्न मूल्य बोली के लिए बीओक्यू) के अनुसार होगी।

03. निविदा दस्तावेज जिसमें विशिष्टियाँ, नियम और शर्तों का विवरण दिया गया है, एफएसएसएआई की वैबसाइट [www.fssai.gov.in](http://www.fssai.gov.in) और [सीपीपी पोर्टल अर्थात etenders.gov.in](http://etenders.gov.in) पर सरकारी ई-अधिप्राप्ति प्रणाली पर उपलब्ध हैं। ये दस्तावेज सामान्य प्रशासन प्रभाग (जीए डिविजन), एफएसएसएआई, तीसरा तल, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली से भी निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।

04. उपयुक्त रूप से भरे हुए निविदा दस्तावेज निदेशक (सामान्य प्रशासन), एफएसएसएआई, तीसरा तल, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को संबोधित करते हुए संबंधित सहायक दस्तावेज के साथ ऑन-लाइन अथवा 27 दिसम्बर, 2021 से पहले 1100 बजे तक प्रस्तुत करें।

05. पत्राचार का पता : सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, तृतीय तल, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 (email: [gadmin@fssai.gov.in](mailto:gadmin@fssai.gov.in)).

निदेशक(सामान्य प्रशासन)  
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण